



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 14, 1981/माघ 25, 1902

No. 66]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 14, 1981/MAGHA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1981

का. आ. 97(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आंध्र बैंक के अनुरोध पर 14 फरवरी, 1981 से उड़ीसा राज्य में रूषिकुल्या ग्राम्य बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि उड़ीसा राज्य के गंजम जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-15/80-आर. आर. बी (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th February, 1981

S.O. 97(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Andhra Bank, establishes, with effect from the

1331 GI/80

14th February, 1981 a Regional Rural Bank in the State of Orissa under the name of Rushikulya Gramya Bank which shall operate within the local limits of the district of Ganjam in the State of Orissa.

[No. F. 1-15/80-RRB (I)]

का. आ. 98(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा रूषिकुल्या ग्राम्य बैंक के प्रायोजक आंध्र बैंक से परामर्श करके, गंजम जिले में बरहामपुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर रूषिकुल्या ग्राम्य बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-15/80-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 98(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Andhra Bank, by which Rushikulya Gramya Bank has been sponsored, specifies Berhampur in the district of Ganjam as the place where Rushikulya Gramya Bank shall have its head office.

[No. F. 1-15/80-RRB(II)]

का. आ. 99(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रायोजकों के लिए, रूषिकुल्या ग्राम्य बैंक, बरहामपुर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा

(233)

3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती हैं।

[संख्या एफ 1-15/80-आर.आर.पी (1)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 99(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Rushikulya Gramya Bank, Berhampur being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-15/80-RRB (III)]
BALDEV SINGH, Jt. Secy

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजन तथा ऋण कक्ष

अधिसूचना

बम्बई, 14 फरवरी, 1981

का.आ.100(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनु-

सरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि जेवन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“रुषिकुल्या ग्राम्य बैंक, बेरहामपुर (उड़ीसा)”

[आर पी सी सी संख्या 209/आई एन सी एन 31-81]

एम. वी. हाटे, निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT CELL

NOTIFICATION

Bombay, the 14th February, 1981

S.O. 100(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Rushikulya Gramya Bank, Berhampur (Orissa)”.

[RPCC. No. 209/INCL/311-81]

M. V HATE, Director